



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 21, 2018/श्रावण 30, 1940

No. 582]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 21, 2018/SHRAVANA 30, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2018

सं. 59/2018-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 789(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, उन सभी वस्तुओं को, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आती हैं और जब उनका भारत में आयात किया जा रहा हो और उनके आयात किए जाने का उद्देश्य हाल ही में केरल राज्य में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना है, निम्नलिखित से छूट देती है, यथा —

- (क) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम सूची के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले संपूर्ण सीमा शुल्क से; और
- (ख) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से,
- वशर्ते कि :-

- (i) संगत कागजातों के क्लीयरेंस के समय आयातकर्ता इस बात का प्रमाण दें कि इन वस्तुओं को हाल ही में उक्त राज्य में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए मुफ्त में दान स्वरूप दिया जाना है;
- (ii) आयातित वस्तुओं को केन्द्र सरकार, केरल सरकार; या जैसी भी स्थिति हो, केन्द्र सरकार की राहत एजेंसियों, केरल सरकार की राहत एजेंसियों, जिनमें वे राहत एजेंसियां भी आती हैं जिनको की केन्द्र सरकार या केरल सरकार द्वारा इसी उद्देश्य के लिए विधिवत् अनुमोदित किया गया हो, को दिया जाना है; और

- (iii) आयातकर्ता उपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के पास उक्त वस्तुओं के आयात की तारीख से 06 माह के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसे उक्त अधिकारी ने अनुमति दे दी हो, केरल राज्य के प्रभावित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तुओं को उपर्युक्त उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने हेतु दान स्वरूप दे दिया गया है।

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 2018 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[फा. सं. 354/311/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2018

No. 59/2018-Customs

G.S.R. 789(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods falling under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when imported into India and intended for donation for the relief and rehabilitation of the people affected by the recent floods in the State of Kerala from -

- (a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the said Customs Tariff Act; and
(b) the whole of integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the said Customs Tariff Act,

subject to the following conditions, namely:-

- (i) that it is certified by the importer on the relevant clearance documents that the goods are intended to be donated for the relief and rehabilitation of the people affected by the floods in the said State free of cost;
(ii) that the said imported goods are sent to the Central Government, the Government of Kerala; or as the case may be, the relief agencies of the Central Government, the Government of Kerala including the relief agencies duly approved by the Central Government or the Government of Kerala for the purpose; and
(iii) that the importer produces before the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, within six months from the date of importation of the said goods or within such extended period as the said officer may allow, a certificate from the District Magistrate of the affected area in the State of Kerala that the said goods have been donated for use for the aforesaid purpose.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 31st December, 2018.

[F.No. 354/311/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.